

## **CLASS - 5**

### **SUBJECT - 2nd language Hindi**

**TOPIC - विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द**

सार -

#### **# विलोम शब्द -**

विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम कहते हैं अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं।

उदाहरण - सुख - दुःख

अच्छा - बुरा

#### **Grammar book -**

**Page no. - 97**

**Learn - 1 to 15**

(अपना से उपकार तक)

#### **# पर्यायवाची शब्द -**

पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं, जब भिन्न - भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग-अलग शब्द प्रयोग किए जा सकें। इसी कारण से इन्हें समानार्थी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है।

उदाहरण - फूल - कुसुम, पुष्प, सुमन

#### **Grammar book -**

**Page no. - 101**

**Learn - 1 to 15**

(अंधकार से तालाब तक)

#### **# अनेक शब्दों के लिए एक शब्द (वाक्यांश के लिए एक शब्द) -**

ये वे शब्द होते हैं जो एक वाक्यांश का अर्थ देते हैं या ऐसे शब्द जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है।

उदाहरण - मांस खाने वाला - मांसाहारी

#### **Grammar book -**

**Page no. - 107**

**Learn - 1 to 15**

(जो बड़ा भाई हो से पृथ्वी पर घूमने वाला तक)

## WORKSHEET

**Q1)** रेखांकित(underlined) शब्दों के उचित विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए -

- यह कार्य मेरे द्वारा आरंभ हुआ पर इसका ..... तुम करोगे।
- जीवन में उतार और ..... दोनों आते हैं।
- सूर्य उदय होते ही प्रकाश फैल जाता है और ..... होते ही अंधकार छा जाता है।
- इस कार्य को करने की इच्छा ना होने पर भी मुझे यह कार्य ..... से करना पड़ा।
- प्रह्लाद आस्तिक था पर उसका पिता हिरण्यकश्यप ..... था।

**Q2)** निम्न शब्दों के विलोम लिखें -

- आदान
- उत्तीर्ण
- आशा
- अनुकूल
- उपकार

**Q3)** दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -

- अध्यापक हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें ..... के ज्ञान को अपनाना चाहिए।
- कमल पंक में जन्म लेने के कारण ..... नाम से भी पुकारा जाता है।
- इंद्र देवताओं का राजा है इसलिए उसे ..... भी कहते हैं।
- हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, हम सबमें उस ..... का अंश हैं।
- रात में चमकने के कारण चंद्रमा को ..... भी कहा जाता है।

**Q4)** निम्न शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखें -

- अमृत
- घर
- कपड़ा
- अंधकार
- आंख

**Q5)** दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें -

- जो आवश्यक हो
- जो सदा घूमता रहता हो
- जो जीता ना जा सके
- जल में रहने वाला

e) जो दिखाई ना दे